

November 27, 2020

**The Secretary  
BSE Limited**

Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal  
Street,  
Mumbai - 400 001

**The Secretary  
National Stock Exchange of India  
Ltd**

Exchange Plaza  
5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai - 400 051

**Subject: Newspaper publication – Intimation of loss of Share certificate**

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of loss of Share Certificate" in the following newspapers today:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For **Coforge Limited**  
**(erstwhile NIIT Technologies Limited)**

**Lalit Kumar Sharma**  
**Company Secretary & Legal Counsel**  
**FCS: 6218**

Encl: as above

**Coforge Limited**

(Erstwhile known as NIIT Technologies Limited)

Special Economic Zone, Plot No. TZ-2 & 2A, Sector - Tech Zone, Greater Noida (UP) - 201308, India.

Tel.: +91 120 4592 300, Fax: +91 120 4592 301 www.coforgetech.com

Registered Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110 019, India.

Tel.: +91 11 41029 297, Fax: +91 11 2641 4900

CIN: L72100DL1992PLC048753



**Union Bank of India**

Opp. Munsifs Court, Old Tehsil Road, Khurja, Dist. Bulandshahr, Uttar Pradesh, Ph. No. 05738-232283

**Notice to the Borrower Informing About Sale (30 Days Notice)**  
(Rule 6(2)(B) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

From: Mr. Girish Chandra Authorized Officer Khurja Branch

To: **Borrower:** M/s Harihar Communication Prop. Mr. Mohit Gupta S/o Ramesh Chand Gupta, office Address: Shop No. 16, Sriram Complex, Oppo. AKF Inter College Khurja district Bulandshahr-203131. **Mortgagors:** 1. Shri Mohit Gupta S/o Shri Ramesh Chand Gupta R/o 127, Sarai Shekh Alam, Khurja district Bulandshahr U.P.- 203131. 2. Mohit Gupta S/o Shri Ramesh Chand Gupta R/o 127, New Shivpuri, Gali No. 3, Khurja district Bulandshahr U.P.- 203131. **Guarantors:** 1. Shri. Ramesh Chand S/o Shri Hajari Lal R/o 127, Sarai Shekh Alam, Khurja, District- Bulandshahr-203131. 2. Shri. Ramesh Chand S/o Shri Hajari Lal New Shivpuri Gali No 3 Khurja, District- Bulandshahr- 203131. 3. Mr. Rajesh Kumar S/o Mr. Ramesh Chand Gupta, R/o 127, Sarai Shekh Alam, Khurja, District- Bulandshahr-203131

**Sub: Sale of Property belonging to you for realization of amount due from you to Union Bank of India, Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (Act 54 of 2002)**

Whereas you have defaulted to pay the amount due from you in spite of demand made by me/Bank through Demand Notice U/s 13(2) dated 01.08.2019

1. In exercise of the power conferred under the above Act, took possession of the below mentioned property on 11.12.2019.

Even after taking possession of the property, you have not paid the amount due from you to Union Bank of India. As such, it has become necessary to sell the below mentioned property above the Reserve Price of Rs. 5136031.20 (Rupees Fifty one lakh thirty six thousand thirty one & paise twenty only) by inviting tenders/bid public auction/e-auction/Private Treaty (strike off inapplicable portion) after 30 days from the date of this notice.

The date and time of auction and the details of the service provider shall be informed through a Sale Notice which shall be issued separately, and the property would be sold to the person who offers highest price.

Since, the property may be sold by Private Sale also or obtaining quotations from the persons also, subject to terms and conditions acceptable to the Bank and intending purchaser.

If you have any such proposal of selling the property to any person by private sale or by getting quotation, the same may be communicated to me within 7 days from the date of receipt of this Notice.

Failing which, it will be construed that you have no such proposal and I will proceed with sale of property by inviting quotations/tenders/public auction/e-auction/private treaty.

Please take notice that if you pay the amount due as specified in the Demand Notice dated 01.08.2019 with subsequent interest thereon along with cost and expenses incurred by the bank till date before the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of secured assets, no further auction shall be taken for sale of the property mentioned in the schedule. (Right of redemption is available as per section 13(B) of the Act)

**Schedule of Property**

Commercial shop bearing municipal no. 174, measuring 14.83 Sq. mtr as per sale deed dt:19.03.2016 & reg.no-3885 located at Mandi Dhangari, Kasba khurja Tahsil khurja district Bulandshahr in the name of Mr. Mohit Gupta S/o Ramesh Chand Gupta. Boundaries: East: Shop of Khem Chand Gupta, West: 20 ft. wide Rasta, North: Shop of Ranveer Singh, South- 20 ft. wide Rasta.

**Date: 29.10.2020** **Authorized Officer**  
**Place : Khurja** **Union Bank of India (Girish Chandra)**

**IDBI BANK**

Jhandewalan Extn., New Delhi-110055. Website: www.idbi.bank.in

**NOTICE FOR EMPANELMENT OF COLLECTION AGENCIES**

IDBI Bank Ltd invites application for empanelment of Collection Agencies for Retail Loans viz. Home Loan, Mortgage Loan, Vehicle Loan, Personal Loan and Education Loan, MSME, Other Agri, and KCC, for Delhi Zone (Covering two states Delhi & Rajasthan). Interested parties may forward their applications with complete profile and supporting documents to IDBI Bank Ltd, 1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055. Please visit our site www.idbi.bank.in for details of the proposal. Last date of submission for application complete in all respect is 03.12.2020.

**Date : 27.11.2020** **Authorized Signatory**  
**Place : New Delhi** **IDBI Bank Ltd.**

**SBI STATE BANK OF INDIA**

Branch : RASMECC, S.K. Tower, Thandi Sadak, Haldwani, Distt. Nainital, Ph. : 05946-222600

**SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES**

Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable properties hypothecated to the secured creditor, State Bank of India, the physical possession of which has been taken by the authorized officer, State Bank of India, the secured creditor, will be sold on "as is where is", as is what is" and "whatever there is" basis on 05.12.2020, for recovery of bank's dues.

Name of Account Holder	Details of Property to be auctioned	Reserve Price	Earnest Money Deposit
Sh. Hafeez Ahmad S/o Sh. Nazeer Ahmad	Car Mahindra TUV300, Reg.no.UK06AP3612	Rs. 4,30,000/-	Rs. 43,000/-

The EMD amount to be deposited with State Bank of India, RASMECC, Haldwani, in the form of Demand Draft (of 10% of Bid Amount) favouring "AGM, SBI, RASMECC, HALDWANI" on or before close of the business on 04.12.2020. Auction will be held at SBI, RASMECC, HALDWANI on 05.12.2020 at 4:30 pm.

**Authorized Officer**  
**Date : 27.12.2020** **Place : Haldwani** **State Bank of India, RASMECC, Haldwani**

**pnb**

BO: Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan. Telephone No. 8003693643, 9001977333  
E-mail: bo3655@pnb.co.in, cs8245@pnb.co.in

**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.** Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab National Bank Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit will be as mentioned in the below against the respective property.

Name of the Branch	Description of the Immovable property	(A) Date of Demand notice u/s 13(2) of SARFAESI Act, 2002	(A) Reserve Price (Rs. in Lacs)	Date/Time of e-auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
Shastri Nagar Branch	All that part and parcel of Equitable Mortgage of Basement, Sangam Sagar Apartment, Plot No. F-2 (Sub Division Plot No. F-2 & F-2 (A) Kanti Chandra Road, Bam Park, Jaipur, Rajasthan measuring 3030.72 Sq. Ft. in the name of Shri Sahil Gupta S/o Shri Subhash Chand Gupta Bounded by: East: Plot No. F-3, West: Plot No. F-1, North: Other: South: Road	A) 05.06.2020	A) Rs. 75,77,900/-	15.12.2020 From 12:00 Noon to 02:00 PM	Not Known
M/s Swati Arts & Crafts Address: F-2 Vinay Path, Kanti Chandra Road, Bam Park, Jaipur, Pin-302016 Proprietor: Shri Mukesh Kumar Gupta S/o Late Shri Manohar Lal Gupta Address: F-2, Vinay Path, Kanti Chandra Road, Bam Park, Jaipur, Pin-302016 Guarantor: Shri Sahil Gupta S/o Shri Subhash Chand Gupta Plot No. F-3, West: Plot No. F-1, North: Other: South: Road	B) Rs. 88,88,702.88 as on 31.01.2020 Plus payable with further interest and expenses payment paid in full.	B) Outstanding amount as on 31.01.2020	B) Rs. 7,57,700/- (4.12.2020)		
	C) 01.09.2020	C) Rs. 10,00,000/- (Ten Thousand only)	D) 11.12.2020 From 11:00 AM to 4:00 PM		
	D) Symbolic Possession				

**TERMS AND CONDITIONS:** The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on "As is where is basis" and "As is what is basis" and "Whatever there is basis". 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorized Officer, but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstccommerce.com on 15.12.2020 as per timing mentioned in the table above. 4. For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapl.in, www.mstccommerce.com, https://procure.gov.in/epublish/app

**STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002**

**Authorized Officer,**  
**Punjab National Bank Secured Creditor**  
**Date: 27.11.2020** **Place: Jaipur**

**ICICI Bank** | *khayaal aapka*

ICICI Bank Limited

**Registered Office:** ICICI Bank Tower, Near Chakki Circle, Old Padra Road, Vadodara- 390 007

**Corporate Office:** ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai- 400 051

**On behalf of ICICI Bank Limited,** Booth No. 5, Sector 2, Opposite Suraj Public School, IMT Bawal, Haryana -123501

**Dear Customers,**

We wish to inform you that w.e.f. 26.12.2020 we are relocating to a more spacious and convenient location. The address is as mentioned below.

**ICICI Bank Limited,**  
**Banipur chowk, Near Bus stand , IMT Bawal, Haryana-123501**

There would be no change in your account numbers or the security items issued to you.

Assuring you of the best services at all times.

Sincerely,  
**Branch Manager**  
IMT Bawal, Haryana Branch

**Coforge Limited**  
(erstwhile NIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753

**Regd Office:** 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.  
Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 28414900  
Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforgetech.com

**NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE**

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has/have applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate:

Folio No.	Name of the Registered holder	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos.
2086	Lt. Gurcharan Kaur/ Satinder Singh	2110	112	10879507 - 10879618
2087	Gurminder Singh/ Satinder Singh	2111	112	10879619 - 10879730
2088	Lt. Sat Prakash Singh/ Satinder Singh	2113	112	10879843 - 10879954
2121	Gurminder Singh/ Ranveet Kaur	2145	112	10883333 - 10883444

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf of  
**Coforge Limited**  
(erstwhile NIT Technologies Limited)  
Sd/-  
**Lalit Kumar Sharma**  
Company Secretary & Legal Counsel

Dated : November 26, 2020  
Place : New Delhi

**ASAHI INDIA GLASS LIMITED**

CIN: L26102DL1984PLC19542

**Registered Office:** Unit No. 203-208, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. Phone: (011) 49454900

**Corporate Office:** 5th Floor, Tower B, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurgaon - 122 002 (Haryana).  
Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88  
Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company have been reported lost/misplaced and applications from the registered holders thereof have been received for issuance of duplicate share certificates:

Name of the shareholders	Folio No.	Distinctive Nos.	Cert. No.	No. of shares
Jugal Kishore Choudhary (Deceased)	00033487	86428968 - 86429004	178607	37
Shakuntala Chaudhary				
Kansara Himatlal Chhotalal	00039186	975235643 - 975235679	128686	37
		86594776 - 86594812	182049	37

Any person(s) having claim in the above shares or any objection to the said issue of duplicate share certificates, should notify the Company's Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, within 15 days from the date of this publication. If no claim/objection is received, the company shall proceed to issue duplicate share certificates as applied for.

For Asahi India Glass Ltd.,  
Sd/-  
**Gopal Ganatra,**  
Executive Director  
**Date : 26<sup>th</sup> November, 2020** **General Counsel & Company Secretary**  
**Place : Gurgaon** **Membership No. F7909**

**CFM Asset Reconstruction Pvt Ltd**

REGISTERED OFFICE: A/3, 5th Floor, Safal Profile/aire, Near Prahlad Nagar Garden, Ahmedabad-380015.

**CORPORATE OFFICE:** 1st Floor, Wakefield House, Spurt Road, Ballard Estate, Mumbai -400038.  
EMAIL: info@cfmrc.in CONTACT: 8789890349/ 0224005280

**APPENDIX - IV / SESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY**

Whereas, The undersigned being Authorized Officer of the CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule (3) of the security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued Demand Notice dated 11.08.2020 and substituted service through Newspaper Publication in Business Standard dated 15.09.2020 under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 calling upon the, **Borrower - Noida Software Technology Park Pvt Ltd (Under Liquidation) - Served through Resolution Professional for Information/reference & records purpose only and Ankur Jain - Guarantor & Legal Heir of Late Jitendra Kumar Jain - Guarantor, Ragini Jain - Guarantor, Jain studio Ltd. - Corporate Guarantor, Bharti Jain - Guarantor, Sanjay Kumar Jain - Guarantor and Mortgagor, Dr. Jain Video on wheels Ltd. - Corporate Guarantor, Development Group - Guarantor and Mortgagor, Dr. Jain Laboratories Pvt. Ltd. - Corporate Guarantor and Mortgagor, Ankur Services Growth Fund Ltd. - Corporate Guarantor to repay Rs. 40,28,83,615/- (Rupees Forty Crore Twenty Eight Lakh Eighty Three Thousand Six Hundred Fifteen Only) as on 30.06.2020 together with further interest plus costs, charges and expenses etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.**

The Guarantors and Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower - under Liquidation, Guarantors & Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 26.11.2020.

The Guarantors and Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CFMARC for an amount of Rs.40,28,83,615/- (Rupees Forty Crore Twenty Eight Lakh Eighty Three Thousand Six Hundred Fifteen Only) as on 30.06.2020 together with further interest plus costs, charges and expenses etc. thereon. The Guarantors and Mortgagors attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DETAILS OF SECURED ASSETS**

Plot No. B24, located at Surajpur Industrial Area, Site C, Village Gullistanpur, Tehsil Sadar, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh, 8092.50 sq. mtr. East- Plot No. D5 & D6, West- Road 18m, North - Plot B23, South - Plot B25, via lease Deed dated 25.04.2005 owned by and in the name of Development Group being mortgagor and Guarantor. Authorized Officer  
Date: 26.11.2020  
Place: Gautam Budh Nagar  
CFM Asset reconstruction Pvt. Ltd.  
(Acting as trustee of CFMARC Trust-1 IB)

**Kotak Mahindra Bank Ltd.**

Corporate Identity No. L65110MH1985PLC038137. www.kotak.com

**Registered Office:** 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -400 051. Branch Office: 1/11, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008

**POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8 (1)]**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Kotak Mahindra Bank Ltd., under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3, of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 13th August 2019, calling upon the Mortgagors/Guarantors of Affinity Beauty Salon Pvt. Ltd., having its registered office at C-25 GREEN PARK EXT., New Delhi-110016, ("Borrower") i.e. (1) Mr. Sansar Chand Sharma, (2) Mr. Vishal Sharma, (3) Mrs. Niharika Sharma, (4) Late. Mr. Abdul Samad (Guarantor) - represented by his Legal Heirs (4.1) Asad Samad, (4.2) Sabina Samad, (4.3) Huda Samad, (4.4) Hamza Samad, (5) Mrs. Nasreen Bano W/o Late Mr. Abdul Samad, and (6) Ms. Tajul Nissa, to repay the amount mentioned in the Demand Notice being to Rs.25,51,09,036.77/- (Rupees Twenty Five Crore Fifty One Lakh Nine Thousand Thirty Six and Seventy Seven Paise only) as on 14th December, 2018, within Thirty days from the issuance of said notice.

The aforesaid Borrower/Guarantors, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower, Guarantor, Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession, of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 24th day of November, 2020.

The Borrower/Mortgagor/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealings with the said properties will be subject to the charge of Kotak Mahindra Bank Ltd. for an amount of Rs.25,51,09,036.77/- (Rupees Twenty Five Crore Fifty One Lakh Nine Thousand Thirty Six and Seventy Seven Paise only) as on 14th December, 2018, plus interest thereon at the documented rate and costs incurred by Bank w.e.f. 15th December, 2018.

The attention of the Borrower/Mortgagor/Guarantor is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the said Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:**

- Property owned by Mr. Vishal Sharma**  
All that piece and parcel of property being entire Ground Floor (hereinafter referred to as the "said floor"), built on property bearing no.25, admeasuring 343 sq.yds, Block-C, Green Park Extension, Yousuf Sarai, Delhi together with all existing buildings and structures thereon and building and structures as may be erected/constructed there upon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furnitures and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth owned by Mr. Vishal Sharma.
- Property owned by Mr. Vishal Sharma**  
All that piece and parcel of property being entire First Floor (hereinafter referred to as the "said floor"), built on property bearing no.25, admeasuring 343 sq.yds, Block-C, Green Park Extension, Yousuf Sarai, Delhi together with all existing buildings and structures thereon and building and structures as may be erected/constructed there upon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furnitures and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth owned by Mr. Vishal Sharma.

**SCHEDULE OF PROPERTY : SCHEDULE - I :**  
ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING PLOT NO. 4 (NEW NO. 3), BANGALUA GALLI NO.1, INDORE, MADHYA PRADESH-452001 (ADMEASURING ABOUT 425 SQ.FTS. I.E. 39.53 SQ. METRS. LENGTH 17x20.6 & WIDTH 7.10x9.9 FT)) AND BOUNDED BY:- EAST- 4 FT RAASTA, WEST- HOUSE OF GOPAL, NORTH-GOVERNMENT STREET, SOUTH:- HOUSE OF PURAN

**Place: INDORE** **Sd/- Authorized Officer**  
**Date: 24-11-2020** **M/s Religare Housing Development Finance Corporation Limited**

**Religare Housing Development Finance Corporation Limited**

Central Office : 1st Floor, Prius Global Tower, A-3, 4, 5, Sector- 125, Noida-201301  
Registered Office : P-14 45/50, P-Block, First Floor, Connaught Place, New Delhi -110001

**POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(1)]**

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Religare Housing Development Finance Corporation Limited (RHDFCL), a Housing Finance Corporation registered with National Housing Bank (fully owned by Reserve Bank of India) under the provision of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "RHDFCL") and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 09.12.2019 calling upon, **RAJESH KUMAR SONWAR S/o RAMESH CHAND SONWAR AND REKHA SONWAR W/O RAJESH KUMAR SONWAR BOTH R/O HOUSE NO. 3, BEHIND BIMA HOSPITAL, MARIMATA BANGANA GALLI-1, INDORE, MADHYA PRADESH-452001.** ("The Borrower") & (The Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 3,35,406.86/- (Rupees Three Lakh Thirty Five Thousand Four Hundred Sixty Eight Paise Only) along with interest from 09.12.2019 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

"The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 24 day of NOV 2020.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "RHDFCL" for an amount of Rs. 3,35,406.86/- (Rupees Three Lakh Thirty Five Thousand Four Hundred Sixty Eight Paise Only) along with interest thereon 09.12.2019.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "RHDFCL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "RHDFCL" and no further step shall be taken by "RHDFCL" for transfer or sale of the secured assets.

**SCHEDULE OF PROPERTY : SCHEDULE - I :**  
ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING PLOT NO. 4 (NEW NO. 3), BANGALUA GALLI NO.1, INDORE, MADHYA PRADESH-452001 (ADMEASURING ABOUT 425 SQ.FTS. I.E. 39.53 SQ. METRS. LENGTH 17x20.6 & WIDTH 7.10x9.9 FT)) AND BOUNDED BY:- EAST- 4 FT RAASTA, WEST- HOUSE OF GOPAL, NORTH-GOVERNMENT STREET, SOUTH:- HOUSE OF PURAN

**Place: INDORE** **Sd/- Authorized Officer**  
**Date: 24-11-2020** **M/s Religare Housing Development Finance Corporation Limited**

**pnb**

Circle Office, 1-2, Raghunath Nagar, M.G. Road, Agra

**Sale Notice for Sale of Immovable Properties**

**E - Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.** Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/ies mortgaged/charged to the Punjab National Bank, Secured Creditor, the Constructive/Physical/Symbolic Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab National Bank, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", on the date as mentioned in the table herein below, for the recovery of dues to the Punjab National Bank, Secured Creditor from the following Borrower (s) and Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) will be as mentioned in the table below against the respective properties

Name of Account / Borrower/Guarantor & Branch	Description of Properties	Amount Due as per demand notice 13(2)	Reserve Price (Rs.) EMD (Rs.) Bid Increase Amt.	E-Auction Date & Time	Posse- sion	Date of Visit of Property	Name of Authorized Officer
<b>Last Date of EMD Deposit : Dt. 14-12-2020 till 5:00 pm</b>							
<b>Ranbir Singh, Branch- Bhaganagar, Agra, Ph. 8171901513</b>	House No.418, LIG 11, Kharsa No.1080, 1017, 1009, Jawahar Puram, Altabaiya, Shahganj, Agra, Area-27.87 Sq. Mtr., Bounded as: East- House No. LIG 415, West- House No. LIG 417, North-Land Other, South-Road 8.09 mtr. Wide	14,56,000/- + interest & other expenses	8.50 Lac 0.85 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 15-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Physical	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. D.K. Shashi Chief Manager Circle Office Agra Authorized Officer
Sh. Shailesh Kumar Rai S/o Sh. Shambhu Nath Rai & Smt. Kanak Bharti Rai W/o Sh. Shailesh Kumar Rai Branch- Bhaganagar, Agra, Ph. 8171901513	Residential House No.72 (Kharsa No. 487), Vishal Kunj Colony, Dahatora Mod, Behind Hema Petrol Pump, Boddia, Agra, Area-96.15 sq. mtr., in the name of Sh. Shailesh Kumar Rai, Bounded as : East-Plot No. 73, West-Plot No. 71, North-25 ft. wide Road, South-Other Land	23,16,692/- + interest & other expenses	23.00 Lac 2.30 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 15-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Physical	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. D.K. Shashi Chief Manager Circle Office Agra Authorized Officer
1. M/s Tiles Emporium Prop. Deepak Kalra, Add. 1. First Floor, 69, Ambedkar Road, Ghaziabad., Add. 2. Kharsa No.1074, Mouza: Balpur, Kailash Mandir Road, Sikandra, Agra, 2. Deepak Kalra, Add. A-22, Ashok Nagar, Ghaziabad. Guarantor-Smt. Krishna Wanti, Smt. Shashi Rani & Shri Rajan Bharara, Add. of All: Block No. 29, House No.80, West Patel Nagar, Central Delhi, Delhi.	1. EM of commercial Shop No.12 & 13 on ground floor without roof rights and verandah & basement and open space situated at House No.19C, Old Mohalla Chandrapuri (Hapur Road), Tehsil & Dist. Ghaziabad, Area: 44.77 Sq. Mtr., Property in the name of Shri Deepak Kalra s/o Shri Kartar Singh Kalra, Bounded as: East: Plot No.19B, West: Road, North: Plot No.19D, South: Hapur Road	11,01,10,99.59 + interest from Dt. 01-03-19 & other expenses	85.00 Lac 8.50 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 15-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Symbolic	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. Nitin Pandey Chief Manager Authorized Officer
2. EM of the residential house, Ground floor & first floor situated at Plot No.29/80, West Patel Nagar, New Delhi, Area : 84.033 Sq. mtrs, Property In the name of Smt. Krishna Wanti (1/2share), Smt. Shashi Rani (1/4 share) & Master Rajan Bharara (1/4 share), Bounded as: East: Plot No.29/79, West: Lane, North: Lane, South: Lane	2. EM of the residential house, Ground floor & first floor situated at Plot No.29/80, West Patel Nagar, New Delhi, Area : 84.033 Sq. mtrs, Property In the name of Smt. Krishna Wanti (1/2share), Smt. Shashi Rani (1/4 share) & Master Rajan Bharara (1/4 share), Bounded as: East: Plot No.29/79, West: Lane, North: Lane, South: Lane	100.00 Lac 10.00 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 15-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Symbolic	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. D.K. Shashi Chief Manager Circle Office Agra Authorized Officer	
M/s Vinayak Shakti Powertech Pvt. Ltd., Shri Nikhil Chaturvedi & Smt Yojna Chaturvedi, Branch: (E-08C) M. G. Road, Agra, Ph. 8393854698	All that part and parcel of property at Plot no.73 A MPL No. 36/175 New Agra Tehsil & Distt Agra, Area-278.69 sq meter standing in the name of Late Sh. Bharat Chand Chaturvedi s/o Sh. Hira Lal Chaturvedi, Bounded as: East: Remaining part of property No. 36/175 Kotli No.73A, West: House No. M/s Amarnath & sons, North: Chandrawati Vaika Vidhyalaya, South: Road	2,32,63,555/- as on 31-07-2020 + interest & other expenses	160.00 Lac 16.00 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 15-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Symbolic	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. D.K. Shashi Chief Manager Circle Office Agra Authorized Officer
M/s Om Hybrid Seeds, Vill. Kursanda, Teh Sadabad, Distt. Mahamayanganar, Hathras, Also at 135, New Market Jeoni Mandi, Agra, Sh. Suresh Chand Chaudhary S/o Sh. Shishamber Singh, 51, Valbhav Enclave, Karmyogi, Kamla Nagar, Agra, Smt. Omviri Chaudhary w/o Sh. Suresh Chand Chaudhary, 51, Valbhav Enclave, Karmyogi, Kamla Nagar, Agra Branch: E-United, Agra Main, Ph. 7895697269	Property No - 01 - Property owned by Smt . Omviri Chaudhary W/o Shri. Suresh Chand situated at Market Khata No. 1949 Kharsa No. 1912 Mauza Kursanda, ward, Paragna & Tehsil Sadabad village Kursanda Distt. Mahamayanganar (Hathras) area 1.432 Hectare .	1,69,16,631/- + interest & other expenses	312.00 Lac 31.20 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 15-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Symbolic	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. D.K. Shashi Chief Manager Circle Office Agra Authorized Officer
Property No - 02) - Property owned by Suresh Chand Chaudhary w/o Shri. Suresh Chand situated at Khata No.429 Kharsa No. 1913 , Mauza Kursanda , ward Paragna & Tehsil Sadabad village Kursanda Distt. Mahamayanganar (Hathras) area 0.040 Hectare.	Property No - 02) - Property owned by Suresh Chand Chaudhary w/o Shri. Suresh Chand situated at Khata No.429 Kharsa No. 1913 , Mauza Kursanda , ward Paragna & Tehsil Sadabad village Kursanda Distt. Mahamayanganar (Hathras) area 0.040 Hectare.						
<b>Last Date of EMD Deposit : Dt. 28-12-2020 till 5:00 pm</b>							
<b>Sheelendra Singh, Branch- Bhaganagar, Agra, Ph. 8171901513</b>	Flat No. 301 (3rd floor), Sherom Comple (Pro No. 14/283 & 14/283-A/1), Madan Mohan Darwaja, near Police Station, Agra, Area-83.91 Sq. Mtr., Bounded as: East- Common Passage, West-Other's Property, North-Flat No. 302, South-Open to Sky	23,41,000/- + interest & other expenses	24.20 Lac 2.42 Lac 20,000/-	E-Auction Dt. 29-12-20 10:00 am to 04:00 pm	Symbolic	Dt. 07-12-20 Dt. 11-12-20	Mr. D.K. Shashi Chief Manager Circle Office Agra Authorized Officer
<b>Richa Sleodhya &amp; Nitendra, Branch- Bhaganagar,</b>							